

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE GOVERNMENT OF INDIA		 भारत सरकार Government of India		पत्र सं. 31 No. 0221/44429 	
पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार पेटेंट प्रमाण पत्र (पेटेंट नियमावली का नियम 74)		The Patent Office, Government Of India Patent Certificate (Rule 74 of The Patents Rules)			
पेटेंट सं. / Patent No.		538082			
आवेदन सं. / Application No.		201721008920			
फाइल करने की तारीख / Date of Filing		15/03/2017			
पेटेंटी / Patentee		Shivshanker Kanhuji Chopkar			
<p>प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रवर्तित ARTIFICIAL RAINMAKING BY HIGH POWER LASER INITIATION ENDOTHERMIC REACTIONS THROUGH DRONE AIRCRAFT REMOTE CONTROL SYSTEM नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट आविषय, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख मार्च 2017 के पंद्रहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि को लिए पेटेंट अनुवृत्त किया गया है।</p> <p>It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled ARTIFICIAL RAINMAKING BY HIGH POWER LASER INITIATION ENDOTHERMIC REACTIONS THROUGH DRONE AIRCRAFT REMOTE CONTROL SYSTEM as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 15th day of March 2017 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.</p>					
अनुदान की तारीख Date of Grant		15/05/2024 			
नियंत्रक पेटेंट Controller of Patents					
टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए शीत, यदि इस वर्ष 15 अक्टूबर 2017, मार्च 2019 के पंद्रहवें दिन को और उसके पंद्रहवां प्रत्येक वर्ष में उसी दिन तक होगा। Note - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 15 th day of March 2019 and on the same day in every year thereafter.					

**International Australian Government, IP Australia
Certificate of Grants Innovation Patent number:
2020101897 (2021).**



Australian Government
IP Australia

CERTIFICATE OF GRANT INNOVATION PATENT

Patent number: 2020101897

The Commissioner of Patents has granted the above patent on 9 September 2020, and certifies that the below particulars have been registered in the Register of Patents.

Name and address of patentee(s):
Shivshankar Kanhuji Chopkar of Artificial Rainmaking Research Society, 39, Santra Market Nagpur Maharashtra 440018 India

Title of invention:
ARTIFICIAL RAINMAKING BY HIGH POWER LASER INITIATION ENDOTHERMIC REACTIONS THROUGH DRONE AIRCRAFT REMOTE CONTROL SYSTEM

Name of inventor(s):
Chopkar, Shivshankar Kanhuji

Term of Patent:
Eight years from 19 August 2020

NOTE: This Innovation Patent cannot be enforced unless and until it has been examined by the Commissioner of Patents and a Certificate of Examination has been issued. See sections 120(1A) and 129A of the Patents Act 1990, set out on the reverse of this document.



Dated this 9th day of September 2020
Commissioner of Patents

PATENTS ACT 1990
The Australian Patents Register is the official record and should be referred to for the full details pertaining to this IP Right.

This data, for application number 2020101897, is current as of 2021-12-30 21:00 AEST